



प्रेस नोट

## मऊ पुलिस एवं एटीएस वाराणसी की संयुक्त कार्यवाही में 1,39,300 रु० की जाली मुद्रा के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक : 06 अक्टूबर, 2018

आज दिनांक 06.10.2018 को कोतवाली नगर मऊ पुलिस एवं एटीएस की वाराणसी इकाई की संयुक्त कार्यवाही में आजमगढ़ के सठियांव एवं कोतवाली नगर क्षेत्र से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 1,39,300 मूल्य की जाली मुद्रा बरामद हुई।

उक्त प्रकरण में थाना-कोतवाली नगर, जनपद-मऊ में मु.अ.सं.-454/18 अंतर्गत धारा-489क,ख,ग,घ एवं धारा 5/7 The Specified Bank Notes (Cessation Of Liabilities) Act, 2017 पंजीकृत कराया गया।

### पूछताछ विवरण :-

- गैंग का सरगना मो. मंसूर है, जो अपने दो साथियों के माध्यम से भारतीय जाली मुद्रा का व्यापार करता था।
- यह नेपाल के वीरगंज से 40 हजार में 1 लाख भारतीय जाली मुद्रा लाकर जनपद मऊ व आजमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई करता था।
- नोटबंदी के बाद से अचानक जाली मुद्रा का धंधा बन्द हो गया अतः यह अपने घर पर ही कलर प्रिंटर व स्कैनर से 10 व 20 रूपये के स्टाम्प पेपर पर जाली मुद्रा की छपाई शुरू कर दी।
- एटीएस ने अभिसूचना को विकसित किया और सठियांव आजमगढ़ से उस्मान और तालिब को गिरफ्तार किया।
- इसके बाद गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर मंसूर को मऊ से गिरफ्तार कर प्रिंटर और स्कैनर बरामद किया गया।
- कुछ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आये हैं।

### अग्रिम कार्यवाही :-

- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का पता लगाया जाएगा।
- ये इन जाली मुद्रा को कैसे प्रयोग करते थे।

### गिरफ्तार करने वाली टीम :-

मऊ पुलिस के निरीक्षक शिशिर त्रिवेदी, उ.नि. विनोद तिवारी, उ.नि. रमेश कुमार, उ.नि. श्याम जी यादव, आरक्षी अशोक सिंह, विकास चंद्रपाल, धर्मेन्द्र कुमार, विजय यादव, सतीश कुमार, राजधारी सिंह, शीतला कुशवाहा एवं एटीएस की वाराणसी इकाई से निरीक्षक शैलेन्द्र त्रिपाठी, आरक्षी अलोक सिंह, रणविजय तिवारी, प्रभात द्विवेदी, नित्न्द्र कृष्ण यादव, अभिषेक कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह।

### अभियुक्तों का विवरण

मो. तालिब अंसारी पुत्र मतलुब अंसारी निवासी-मुंशीपुरा, नई बस्ती, थाना कोतवाली नगर, मऊ	मो.मंसूर पुत्र मो. अफजाल निवासी-121 मलिक तहिरपुरा, थाना कोतवाली नगर, मऊ	मो.उस्मान पुत्र कमालुद्दीन निवासी-मुंशीपुरा, नई बस्ती, थाना कोतवाली नगर, मऊ

### बरामदगी

1. 2000 के 15 नोट	
2. 500 के 185 नोट	
3. 100 के 8 नोट	
4. 500 पुरानी मुद्रा के 32 नोट	
<b>कुल 1,39,300 रूपये</b>	
5. मोबाइल फोन	-3 अदद
6. लैपटॉप एसर	-1 अदद
7. कलर प्रिंटर HP	-1 अदद
8. 10 व 20 के स्टाम्प पेपर आधे कटे	-124 अदद
9. अधछप्पे 100 एवं 2000 के पेपर	-5 अदद
10. सादे नोट प्रिंटिंग पेपर	-200 अदद
11. ग्लैमर मोटर साइकिल	-1 अदद
UP54X0730	